

शामली दर्पण



VOLUME 38

**01/Sep/2019 TO
31/Sep/2019**

ई-पत्रिका



WELCOME TO SHAMLI

पार्क में महापुरुषों की मूर्तियां



स्वच्छ सर्वेक्षण 2019



(गणेश चतुर्थी)

02/09/2019

आज 2 सितंबर को देशभर में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2019) का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व अगले 10 दिनों तक चलेगा। इन दिनों पूरे धूमधाम के साथ भगवान गणेश (Lord Ganesha) की पूजा की जाएगी। भगवान गणेश का नाम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले लिया जाता है। ताकि घर में सुख और समृद्धि का वास हो सकें। ऐसे में क्यों न इस खास मौके से जुड़ी खुशियां आप अपनों के साथ बांटे। ये काम आप उन्हें मैसेज या फिर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कर सकते हैं। यहां देखिए कुछ मैसेज (Messages), फेसबुक (Facebook) और वाट्सएप तस्वीरें जो आप अपनों को भेज सकते हैं।

दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा
ये गणेश जी का दरबार है
देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को
अपने हर भक्त से प्यार है
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं



नगर पंचायतों के लिए करोड़ों मंजूर

14वें और राज्य वित्त की धनराशि से कार्ययोजना को डीएम ने दी मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

आजमगढ़। 14वें और राज्य वित्त के तहत निकायों को मिलने वाली धनराशि से बनाई गई विकास कार्यों की कार्ययोजना को जिलाधिकारी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब निकायों की ओर से टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नगर पंचायत अतरीलिया में 57.79 लाख की कार्ययोजना पेश की गई थी। इसमें वार्ड पांच में सीसी रोड, पुलिया, फटबैक लोडर की खरीद, आरओ प्लांट, जनरेटर खरीद और एलईडी लाइट की खरीद शामिल थी। इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ अवस्थापना निधि की 1.99 लाख से 20 लाइटों की खरीद को मंजूरी मिली है। नगर पंचायत महाराजगंज में 39.04 लाख से

जेसीबी खरीद, वार्ड छह में नाली निर्माण और लाइट खरीद को मंजूरी मिली है। बिलरियागंज में 48.92 लाख से वार्ड सात में सीसी रोड, नगर पंचायत में चहारदीवारी और स्टोर रूम, डस्टबिन खरीद, टैंकर, सबमर्सिबल पंप और लाइटों की खरीद शामिल है। जीयनपुर में 53.95 लाख से लाइटों, 11 हैंडपंप, रामलीला मंच का निर्माण कराया जाएगा। अवस्थापना निधि से वार्ड तीन में 3.77 लाख से इंटरलाकिंग और नाली का निर्माण कराया जाएगा। अजमतगढ़ में 47.54 लाख से लाइट खरीद, सोलर लाइट खरीद, वार्ड आठ में मिनी ट्यूबवेल, दुर्गा मंदिर के पास पाइप लाइन का विस्तार और पंप हाउस का निर्माण कराया जाएगा। निजामाबाद में 45.43 लाख से वार्ड सात में नाली, इंटरलाकिंग,

विद्युतीकरण का कार्य होगा।

सरायमीर में 69.72 लाख से कई वार्डों में इंटरलाकिंग, नाली, लाइट खरीद और फाणिंग मशीन की खरीद की जाएगी। फूलपुर में 35.36 लाख की लागत से इंटरलाकिंग, नाली, पथ प्रकाश की व्यवस्था के साथ फाणिंग मशीन की खरीद की जाएगी। माहुल में 33.21 लाख की लागत से नाली, इंटरलाकिंग, लाइट खरीद की जाएगी। चैयरमैन की ओर से कहा गया कि सफाई के मद में धनराशि की आवश्यकता नहीं है। लालगंज में 55.54 लाख की लागत से साइटवाल, इंटरलाकिंग, लाइट खरीद और ट्रैक्टर खरीद होगी। मेहनगर में 38.48 लाख की लागत से कार्य कराए जाएंगे। लगभग आठ लाख की अवस्थापना निधि से लाइट खरीदे जाएंगे।





स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

बापू का नारा, स्वच्छ भारत हैं बनाना \

भूमण्डल में गूंजे गान \

मेरा भारत देश महान \ \

फिर गूजेंगा का बापू का गान \

स्वच्छ रहे भारत का हर ग्राम \ \

कूड़ा करकट का हैं अम्बार \

सबको मिलकर करना हैं साफ \ \

अपने कर्मों को सुधारे \

नदियों को पवित्र बनायें \ \

स्वच्छता उन्नति का आधार हैं \

लम्बे जीवन का सार हैं \ \

स्वच्छता आकर्षण का आधार हैं \

स्वच्छता मोक्ष का द्वार भी हैं \ \

बच्चे बूढ़े, और जवान हैं ,

सहयोग सेतु में बंध एक साथ \

संकल्प करे फिर एक बार \

स्वच्छ रखेगा भारत को हर हाथ \ \

अच्छे दिनों को लाना हैं \

भारत का मान बढ़ाना हैं \ \

स्वच्छ भारत मिशन शामली

श्री सुरेंद्र सिंह

श्रीमती अंजना बंसल

(अधिकांश अधिकारी)

(अध्यक्ष)

Contact Us



: www.fageosystems.in



: info@fageosystems.in

Tel/Fax : 01204349756